

Date: August 05, 2020

To **The Manager – Listing BSE Limited** (BSE: 542726)

**The Manager – Listing National Stock Exchange of India Limited** (NSE: INDIAMART)

Dear Sir/Ma'am,

Sub: Newspaper Advertisement on Information regarding the 21<sup>st</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Company through Video Conferencing/Other Audio-Visual Means

Pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements] Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020,17/2020 and 20/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/ 2020/79 dated May 12, 2020, please find enclosed the copies of the newspaper advertisement published in "Business Standard" in English and Hindi language on August 1, 2020 providing information regarding on of 21<sup>st</sup> AGM of the Company to be held on August 31, 2020 through Video Conferencing/Other Audio Visual Means facility.

The same is also available on website of the Company at <u>http://investor.indiamart.com</u>.

Please take the above information on record.

Yours faithfully, For Indiamart Intermesh Limited

(Manoj Bhargava) Sr. Vice President (Legal & Secretarial), Company Secretary & Compliance Officer

Encl: as above

Pupperp



PUBLIC NOTICE Notice hereby given to the public that the case bearing no. S.A./211/2019 Under SARFAESI Act 2002 with regard to the Scheduled Property has bee pending before Debt Recovery Tribunal-I, Jeeva Tara Building, New Delhi titled as "Four Hous Sourcing Pvt Ltd. & ORS VS. Bank of Baroda dy wants to buy the same Scheduler he/she will be liable for the risk and nces related to Scheduled Property. consequences related to Scheduled Property. Scheduled Property: Owner Ship: Rakesh Kumar lika Bhist Mara Buist Address: Flat bearing No. E-101, Plot No. 12 Sector-22, Udyog Vihar, CGHS Apartment, Phase-I Dwarka, New Deihi-110074. SD/

SI

Four Housing Sourcing (P) Ltd.

🥥 emami paper mills limited entaint Cite Construction of the Construction of Construct

# NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, the 13th August, 2020 through Video Conferencing inter-ailat to consider the Unaudited Financial Results for the 1st Quarter ended 30th June, 2020.

This notice can be viewed on the website of the Company at www.emamipaper.in, Bombay Stock Exchange Limited at www.bseindia.com & National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

For Emami Paper Mills Limite Vice President , & Secretary FCS -2028 (G.Saraf) resident (Finance) Place : Kolkata Date : 31.07.2020

O pnb

Branch Office: Chandpole.Jaipu E Mail-bo2208@pnb.co.in Ph. No. 0141-237820

APPENDIX IV [See Rule 8(I)] POSSESSION NOTICE Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the Punjab National Bank unde the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of Powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice dated 11/02/2020 calling upon the Borrowers/Guaranto//Mortgagor Sh. Bhagwan Sahai Gautam S/o Sh. Jagdish Prasad Gautam & Smt. Chandrakala Devi W/o Sh. Bhagwan Sahay Gautam to repay the amount mentioned in the notice being is Rs. 25,03,821.92 (in words Rupees Twenty five lakh three thousand eight hundred twenty one & paisa ninety two only as on 31/01/2020 payable together with further interest w.cf. 01/02/2020 until payment in full within 60 days from the date of notice/date of receipt of the said notice.

The borrower/ mortgagor having failed to repeat the amount, notice is hereby given to the borrower/ mortgagor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on this **30th** day of **July** of the **30th** day of **July** of **30th** day of **3** 

The borrower/ mortgagor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Punjab National Bank for an amount of **Rs 25,25,093.90** as on **29/07/2020** and interest & expenses thereon until full payment

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY All that part and parcel of the property of Sh. Bhagwan Sahal Gautam S/o Sh. Jagdish Prasad Gautam consisting of land & building, structures, erections, installations, etc. Residential buse situated at. Piot No. 56, Laxmi Nagar, Goner Road, Jaipur, Rajasthan. Admeasurin about 180 Sq Yards. Bounded as under:- On the North by – Piot No. 55, On the South by Plot No. 57, On the East by–Road 30 feet wide, On the West by–Other Plot Date: 30.07.2020, Place: Jaipur Authorized Officer, Punjab National Ban

# 🗞 Indian Overseas Bank

Vaishali Nagar Branch (1539) F Block, Plot No.-S.R. 3-A Near Community center, Amrapali Mary Vaishali Nagar Jaipur-302021, Rajasthan. Tel- 0141-2247491, 2247492, E maii ID-iob1539@iob. APPENDIX IV- (Rule 8(1)) POSSESSION NOTICE (for Immov

Whereas The undersigned being the Authorised Officer of the Indian Overseas Bank under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with rule 8 Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 04.03.2020 calling upon the borrower M/S Shradha Construction Equipments through Partner Mr. Sanjay Somra s/o Mr. Karan Singh Somra & Mrs. Vineeta Somra W/O Mr. sanjay Somra & Guarantors Mr. Sanjay Somra s/o Mr. Karan Singh Somra, Mrs. Vineeta Somra W/o Mr. sanjay Somra & Mr. Karan singh somra s/o Tarachand Somra to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 69,71,429.98 as on 29.02.2020 with further interest at contractual rates and rests, charges etc. till date of realization within 60 days from the date of receipt of the said notice. rom the date of receipt of the said notice.

. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrow and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on this **26th** day of **July** of the year **2020**.

2. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with The property and any dealings with the property will be subjects to the charge of the Indian Overseas Bank for an amount **Rs.73,24,677.98 as on 30.06.2020** with interest thereon a contractual rates & rests as agreed, charges etc., from the aforesaid date mentioned in the demand notice till date of payment less repayments, if any, made after issuance of demand notice. The dues payable is Rs.73,24,677.98 as on 30.06.2020 with further interest at

 The borrower attention is invited to provisions of Sub-section (8) of the Section 13 of the Act, in respect of time available to them, to redeem the secured assets. DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY: Equitable mortgage of property in the name of Shri Karan Singh Somra, admeasuring 460.77 Sq .Yds at Residential Plot no 162,Lions Lane Scheme, Sirsi Road, Jaipur East-Plot No 163, West- Park, North-Road, South-other's plot Date: 28.07.2020 Place: Jainur Indian Overseas Bank

KAUSHALYA INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED Regd.Office: HB - 170, Sector-III, Salt Lake, Kolkata - 700 106, E-mail- info@kaushalya.net, Ph.: 033-2334 4148 CIN- L51216WB1992PLC055629 Extract of Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2020 (₹ In Lakh, except per share data Standalone Quarter Quarter Ended 31-12-2019 Quarter Ended 31-12-2019 Particular Year Quarte Year Ended 31-03-2020 Ended 31-03-2020 Ended 31-03-2020 Ended 31-03-2020 (Unaudited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Unaudited) 18.05 6.64 18.05 Total Income from Operations 4.53 6.64 4.53 Net Profit / (Loss) for the period

(448.56) (35.50) (580.29) (557.07) 1.78 (626.27) (before Tax Exceptional and/or Extraordinary Items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) (448.56) (35.50)(580.29) (557.07) 1.78 (626.27) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) (420.46) (33.78) (546.98) (536.33) (5.87)(615.07) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] (629.45) (33.78) (755.97)(748.05) (5.87) (826 79 6 Equity Share Capital 3,463.06 3,463.06 Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year 566.26 424.31 Earnings Per Share (of Rs.10/-each) (for continuing and discontinued operations)-Basic & Diluted (Rs.) (1.21) (0.10) (1.58) (1.55) (0.02) (1.78)

1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly & Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly & Yearly Financial Results are available on Stock Exchanges Website (www.bseindia.com, www.nseindia.com) and Company's website (www.kaushalya.net). 2 The above standalone/ consolidated results, reviewed by the Audit Committee, were approved by the Board of Directors at its meeting hel

on July 31, 2020. For & on behalf of the Board

Place : Kolkata Date : 31.07.2020

🗞 Indian Overseas Bank

Valshali Nagar Branch (1539) F Block, Plot No.-S.R. 3-A Near Community center, Amrapali Marg Valshali Nagar Jaipur-302021, Rajastan. Tel- 0141-2247491, 2247492, E mail ID-iob1539@iob.i APPENDIX IV- (Rule 8(1)) POSSESSION NOTICE (for immovable property)

Whereas The undersigned being the Authorised Officer of the Indian Overseas Bank under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security the Security ation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated D4.03.2020 calling upon the borrower M/S Somra Buildcon Pvt. Ltd through Director Mr. Sanjay Somra S/o Mr. Karan Singh Somra & Mrs. Vineeta Somra w/o Mr. Sanjay somra & Gurantors Mr. Sanjay Somra S/o Mr. Karan Singh Somra, Mrs. Vineeta Somra W/o Mr. Sanjay somra & Mr. Karan Singh Somra /o Tarachand Somra to repay the amount mentioned in the notice being Rs.9,79,924.89 as on 29.02.2020 with further interest at contractual rates and rests, charges etc. IIII date of realization within 60 days from the date of receint of the said notice. of receipt of the said notice

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the

said Act read with rule 8 of the said rules on this 28th day of July of the year 2020. 2. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subjects to the charge of the Indian Verseas Bank for an amount **Rs.10,19,727.89 as on 30.06.2020** with interest thereon at contractual rates & rests as agreed, charges etc., from the aforesaid date mentioned in the demand notice till date of payment less repayments, if any, made after issuance of demand and a noise of payment ess opportunity is an **30**, **162** and **15** and **16** and **1** 

Act, in respect of time available to them, to redeem the secured ass

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY: Equitable mortgage of Flat No.203, Second Floor, Green Heights Situated at Plot No.G-7, Kanak Vrindavan, Kanakpura, Sirsi Road, Jaipur admeasuring 926.02 sq. Ft and standing in the name of Mr. Sanjay Somra.Boundaries- North-Road, South Other's Land, East-Other's Land, West-Other's Land,

Extension of E.M of Residential plot no 162, Lions Lane Scheme, Sirsi Road Jaipur, admeasuring 460.77 Sq.Yds. In the name of Shri Karan Singh Somra.Boundaries- North- Road, South-Other's Plot, East-Plot No-163, West -park Date: 28.07.2020 Place: Jaipur Authorized Officer Indian Overseas Bank

UTTARAKHAND SAHKARI CHINI MILLS SANGH LTD. (UTTARAKHAND SUGARS) NEAR-RAILWAY CROSSING, BADRIPUR ROAD, JOGIWALA, DEHRADUN-248001 Telephone : (0135) 25666987, 2666988 E-mail : uksugars@ gmail.com, Website : www.uttarakhandsugars.com Letter No Date: 31.07.2020

E-Tender Notice For Export of Sugar

Directorate of Sugar Dept of Food and public Distribution Govt. of India has vide its circular F.No 1(14)/2019-SP-I dated 12/09/2019 & 16/09/2019 has decided to allow export of all grades of sugar namely raw, plantation white as well as refined under MAEQ (Maximum Admissible Export Quota). Online e-Bids are invited for export of 21157 MT sugar from experienced Export House/Merchandise, Govt./Cooperative Institutions (In which State Govt./Central Govt. has/have invested share capital and such institutions having valid Importer/ Exporter code and experience of sugar export) to purchase the quantity of Sugar from Corporation/ Cooperative sugar mills of Uttarakhand State and arrange its export as per above mentioned notification under MAEQ and stipulated norms on the basis of as it is where it is.

### Last date of submission of online tender is 12/08/2020 till 06:00 PM and ender opening date is 13/08/2020 at 10:30 AM. to 3:30 PM

Tender documents can be downloaded from e-tender portal https:/ uktenders.gov.in or Federation's website www.uttarakhandsugars.com he bidders will have to deposit tender fees (Non Refundable) o Rs.2000/- & earnest money in the form of Demand Draft/RTGS /NEF /NET BANKING for Rs. 50.00 per quintal (Rupees Fifty Per Quintal ) i favour of Uttarakhand Cooperative Sugar Factories Federation Ltd. Payable at Dehradun. Tenders without earnest money will not be



PRASAR BHARATI (India's Public Service Broadcaster)

OFFICE OF THE ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL (ENGG) (SZ) ALL INDIA RADIO & DOORDARSHAN, CHENNAI-5.

# NOTICE INVITING E-TENDER

e-Tenders are invited for the following works from the eligible reputed firms/ Contractors having related experience in two bid system

_		ayatem.	
	Tender No.	Name of the work	Submission Date
	PUR/NIT-02	SITC of 40 KVA, True on-line, UPS System along with Battery bank at AIR 6 Stations.	03-08-2020
_		ter a se ser restricter and	

For any further details Terms & Conditions Kindly Log on to https://prasarbharati.eproc.in Amendments / Corrigendum / Ex tension if any would be poted on above website only. DAVP 22507/11/0002/2021

# <u> ඔ</u> ansal Housing Ansal Housing Limited

Sd

Mahesh Mehr

-An ISO 9001:2015 Company-(Formerly known as Ansal Housing & Construction Ltd.) Regd. Office : 606, 6th Floor, Indra Prakash, 21, Barakhamba Road, New Delhi - 110001 Head Office : 2F-AHCL, 2<sup>eff</sup> Floor, Ansal Plaza, Sector-1, Vaishali, Ghazlabad, U.P. - 201010 E-mail : ahl@ansals.com Website : www.ansals.com CIN : L45201DL1983PLC016821 NOTICE TO SHAREHOLDERS

For Transfer of Equity Shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government.

NOTICE is hereby given that the Company would be transferring all those equity shares of which dividends have remained unpaid/unclaimed for 7 (seven) or more consecutive year to the Demat Account of the Investor Education and Protection Fund Authority ('IEPE Authority'), pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules. 2016 ("the Rules") as amended to date.

Complying with the requirements set out in the Rules, the Company has communicated to the concerned shareholders individually at their latest available addresses, who have not claimed their dividend for the last seven or more consecutive years i.e., for the financial ear 2012-13 and onwards and whose share(s) are liable to be transferred to the Dema Account of the IEPF Authority under the said rules. The due date for the transfer of nclaimed/unpaid dividend for the financial year 2012-13 is 31st October, 2020 and the shareholders have been requested to claim the said unpaid/unclaimed dividend for the financial year 2012-13 before 21st October, 2020.

The Company has also uploaded the details of such shareholders along with their folio number or DP ID/Client ID and the number of shares due for transfer to Demat Account of the IEPF Authority on its website at www.ansals.com. The shareholders are requested to refer to the web-link http://www.ansals.com/corporate/list-of-unclaimedhares.asp?links=Investors8 to verify the details of dividend warrants not encashed and the shares liable to be transferred to the Demat Account of the IEPF Authority

Both the unclaimed dividend and corresponding shares transferred to the IEPF Dema Account can be claimed back from IEPF Authority after following procedure prescribed in the Rules. No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amoun and the shares transferred to IEPF Demat Account pursuant to the Rules.

The shareholders may please note that the details uploaded by the Company on its rebsite should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of the duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of physical shares to Demat Account of the Authority. In respect of shares held in Demat form, requisite corporate action shall be taken.

In case the shareholders have any gueries on the subject matter, they may contact the Company at its Corporate Office at Ansal Plaza Mall, 2nd Floor, Sector - 1, Vaishali Ghaziabad, U.P. - 201010, Tel. No.: 0120-3854214, Email : sect@ansals.com, Website ww.ansals.com or Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), M/s Link time India Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110058, Tel. No.: +91-11-49411000, Fax: +91-11-41410591, Ernail: delhi@linkintime.co.in, Website: www.linkintime.co.in.

FOR ANSAL HOUSING LIMITED (PREVIOUSLY KNOWN AS ANSAL HOUSING AND CONSTRUCTION LIMITED)

(S.N. Grover) Addl. V.P. & Company Secretary M. No. – FCS 4055 Dated: 31.07.2020 Place: New Delhi

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

**Resolution Recovery & Law Cluster Delhi (North-West)** 8/1, Abdul Aziz Road, W.E.A. Karol Bagh, New Delhi-110005, Ph.: 40045717. 40045742 E-mail: rrl\_7620@obc.co.in



{Rule 8(1)} POSSESSION NOTICE (for movable / immovable property)

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of (erstwhile OBC) now PUNJAB NATIONAL BANK under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued a demand to tice on below mentioned dates, calling upon the below mentioned borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice The Borrower/Guarantor/Mortgagor having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on below mentioned dates. The Borrower/Guarantor/Mortgagor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties and the dealing with the properties will be subject to the charge of (erstwhile OBC) now PUNJAB NATIONAL BANK for an amount mentioned in the notice.

#### The Borrower/Guarantor/Montgagor attention is invited to provisions of sub - section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets Description of the Mayable / Im

	Description of the Movable / Immovable Properties				
Sr. No.		Description of the Immovable property.	Amount Outstanding	Date of Demand Possession Notice	
1	1. Mr. Bharat Kumar (Borrower) R/o H. No 2998, Ground Floor, Gali		₹ 49,65,851/-	01-01-2020	
	No-15, Shiv Chowk Ranjit Nagar, New Delhi- 110008, <u>Also at</u> H. No. 628, Sadar Bazar, Karnal, Haryana- 132001 2. <b>Mrs. Neha (Co-Borrower)</b> , R/o H. No 2998, Ground Floor, Gali No- 15, Shiv Chowk Ranjit Nagar, New Delhi- 110008. <u>Also at</u> H. No. 628, Sadar Bazar, Karnal, Haryana- 132001	Out of freehold property bearing no. XVII/2998, alongwith proportionate undivided, indivisible and	and interest & Cost thereon w.e.f. 10-07-2020	27-07-2020	
Date	Date : 27-07-2020, Place : New Delhi Authorized Officer, PUNJAB NATIONAL BANK				

Branch Office: Shastri Nagar, Jaiou Phone No. : 0141-228043 E-Mail: bo3555@pnb.co.i

APPENDIX IV [See Rule 8(I)] POSSESSION NOTICE Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the **Punjab National Bank** under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of Powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice dated 24.04.2019 calling upon the Borrowers/Guarantor/Mortgagor Ms. Anisha Sisodia, Ms. Reshma Begum and Mr. Yunus Mohammad Fizvi to repay the amount mentioned in the notice being is Rs. 10,70,350.50 (Rupees in words Ten lakh Seventy thousand Three hundred Fifty and Paisa Fifty only) as on 31.03.2019 payable with further interest & other legal charges w.e.f. 01.04.2019 until payment in full within 60 days from the date of notice/date of receipt of the said notice. The borrower/mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the

borrower/mortgagor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on this **30th Day of July of the** ver 2020. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section " of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

The borrower/ mortgagor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the **Punjab National Bank** for an amount of **Rs. 1066940/- as on 29.07.2020** and interest & DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY

All that part and parcel of the property of Ms. Anisha Sisodiya (Begum) W/o Mr Mohammad Iqbal & Mr. Mohammad Yunus S/o Mr. Abdul Gaffur consisting of land building, structures, erections, Installations etc. situated at House No. 3162, Kalya Ji ka Rasta, Chandpol Bazar Jaipur Rajasthan.

Authorized Officer, Punjab National Bank Date: 30.07.2020, Place: Jaipur

#### emami paper mills limited emami CIN : L21019WB1981PLC034161

Regd. Office: ACROPOLIS, Unit No.1, 15th Floor, 1858/1, Rajdanga Main Road, Kasba, Kolkata -700 107. Ph. No. 6627-1301, Fax No.6627-1338. e-mail:emamipaper@emamipaper.com, website : www.emamipaper.in

NOTICE TO THE EQUITY SHARE HOLDERS Sub : Transfer of Unclaimed Dividend and the corresponding Equity Shares to the Investor Education and Protection Fund

This Notice is published pursuant to the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 notified by the Ministry of Corporate Affairs as amended from time to time ('the Rules' The Companies Act, 2013 and the Rules, inter alia, contain provisions for transfer of al shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven cons ars in the name of Investor Education and Protection Fund ('IEPF').

Adhering to the requirement set out to the rules the unclaimed dividend for the financia year ended 31st March, 2013 and the corresponding Equity Shares of the Company in respect of which dividend entitlements have remained unclaimed for seven conse years from the financial year ended 31st March, 2013 will be due for transfer to the Investor Education and Protection Fund of the Central Government (IEPF) on 16th September, 2020, pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016.

Individual letters in this regard have already been sent to the concerned Members a the address registered with the Company on 18th June & 27th July, 2020. The Members may lodge a valid claim with the Company by 31st August, 2020 in respect of their unclaimed dividend. In the event such valid claim is not received within that date the Company, in accordance with the aforesaid provisions of law, shall transfer such dividend and shares to the IEPF. The names of the concerned Members and their folio numbers or DP ID and Client ID numbers are available on the Company's website www.emamipaper.in.

Kindly note that all future benefit, dividend arising on such shares would also be credited to IEPF. Shareholders may also note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to the IEPF including all benefits accruing on such shares, if any can be claimed back by them from IEPF Authority after following the procedure prescribed in the Rules

Please note that the due date for claiming dividend for Financial Year 2012-13 is 16th September, 2020. All concerned Shareholder(s) are requested to make an application to the Company/the Company's Registrar and Transfer Agents preferably by 9th September, 2020 with a request for claiming uncashed or unclaimed dividend for the year 2012-2013 and onwards to enable processing of claims before the due date.

In case the shareholders have any queries on the subject matter, they may contact the Company's Registrar and Transfer Agents at Maheswari Datamatics Private Limited, 23, R. N. Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata-700001, Tel. : 033 2243-5029/2248-2248, Fax No. 033 - 2248 - 4787, Email: mdpldc@yahoo.com, website: www.mdpl.in. For Emami Paper Mills Limited,

(G.Saraf) Vice President (Finance) & Secretary FCS -2028 Place : Kolkata Date : 28.07.2020

# indiamarť INDIAMART INTERMESH LIMITED

CIN: L74899DL1999PLC101534

Regd. Office : 1" Floor, 29, Daryaganj, Netaji Subash Marg, Delhi -110002 Tel. : (+91) (11) 49995600, E-mail : cs@indiamart.com, Website : www.indiamart.com

### INFORMATION REGARDING 21<sup>57</sup> ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)

- 1. The Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 & General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 has permitted the holding of Annual General Meeting (AGM) of the company through Video Conference (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM). In compliance with these Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the 21st AGM of the Company will be held on Monday, August 31, 2020 at 04:00 p.m. through VC/OAVM to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the AGM dated July 21 2020. Members participating through the VC /OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act 2013.
- 2. In compliance with the above circulars, the Notice of AGM alongwith Annual Report for the financial year ended 2019-20 and login details for e-voting, shall be sent to the members of the Company, whose email address are registered with the Company/Depository Participant(s).
- 3 The aforesaid documents will also be available on the website of the Company a http://investor.indiamart.com and on the website of Stock Exchanges, i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

# Manner of registering/Updation of Email Addresses:

Members holding shares in physical mode, who have not registered their Email address with the Company are requested to update their email address by writing to the Company at cs@indiamart.com and/or by sending a request to Link Intime India Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent ('RTA') through email delhi@linkintime.co.in or contact 011 - 49411000.

Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered/ updated their Email with the Depositary Participants ("DP"), are requested to register/update their email address with the DP with whom they maintain their demat accounts.

### 5. Manner of casting vote(s) through e-voting:

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all the members to cast their votes on all the resolutions as set out in the Notice of AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting is provided in the notice of AGM

6. Members are requested to read the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting and e-voting during the meeting.

For IndiaMART InterMESH Limited

Sd/

	- Cur
	Manoj Bhargava
ice : Delhi	Senior Vice President (Legal & Secretarial),
te : July 31, 2020	Company Secretary & Compliance Officer
and the second sec	

accepted. The bank details are available inside the tender document. The details for submission of The E-Bids is available on the E-Tende Portals www.uktenders.gov.in & www.uttarakhandsugars.com from 05.08.2020 at 6.00 PM. The administrator reserves the right to cancel any or all E-Bids without assigning any reason. The decision of administrat shall be final and binding.

इस निविदा के सम्बन्ध में सभी संशोधन, स्पष्टीकरण, शुद्धिपत्र, परिशिष्ट, समय वृद्धि आदि को केवल <u>www.uktenders.gov.in</u> & <u>www.uttarakhandsugars.com</u> पर ही दिया जायेगा। निविदादाता अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से इन वेबसाइटों को पडते रहें। Sd/

MANAGING DIRECTOR

10001

बैंक ऑफ़ बड़ीदा	ZOSARB, 13th Floor,
Bank of Baroda	Bank of Baroda Buildin
Supply (10 422 200	16 Sansad Marg, New Delhi-

### POSSESSION NOTICE (For immovable Property) [See rule 8(1)]

Whereas the undersigned being the authorized officer of the Bank of Baroda under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Act), 2002 and in exercise of nowers conferred under section 13 (12) read with (rule 3) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated 27.12.2017, calling upon the borrowers – M/s Ranjit Plastic Industries Pvt. Ltd., 4316 /192, 1&2. 4th Floor, Saini Market, Bahadurgarh Road, Sadar Bazaar, Delhi-110006 and guarantors : Mrs Alka Nigam, 123, Shrestha Vihar, New Delhi -110091, Mrs Alka Nigam, H. No 292, 3th floor, Gagan, Viar, Delhi-110092, Mrs Alka Nigam W/o Late Mr Ranjit Kumar Nigam (legal Hiers of Late) Mr Ranjit Kumar Nigam, 123, Shrestha Vihar New Delhi -110091, Mrs. Alka Nigam W/o Late Mr Ranjit Kumar Nigam (Legal hiers of late) Mr Ranjit Kumar Nigam, H.No. 292, 3th floor, Gagan Vihar, Delhi-110092, Mr Satish Kumar Nigam, C-191, 3rd Floor, Anand Vihar, New Delhi -110092, Mrs Alka Nigam, 123, Shrestha Vihar, New Delhi -110091, Mrs Alka Nigam, H. No 292, 3rd floor, Gagan Vihar, Delhi-110092, Mr Ashish Nigarn, 123, Shrestha Vihar, New Delhi -110091 Mr Ashish Nigam, H. No 292, 3rd Floor, Gagan Vihar, Delhi-110092, Mrs Kashish Nigam, 123, Shrestha Vihar, New Delhi -110091, Mrs Kashish Nigam, H.No. 292, 3rd Floor, Gagan Vihar, Delhi-110092, Mr Ashish Nigam S/o Late Mr Ranjit Kumar Nigam (legal Hiers of Late) Mr Ranjit Kumar Nigam, 123, Shrestha Vihar, New Delhi -110091 Mr Ashish Nigam S/o Late Mr Ranjit Kumar Nigam (legal Hiers of Late) Mr Ranjit Kumar Nigam, H. No 292, 3rd Floor, Gagan Vihar, Delhi-110092, Mrs Isha Tyagi W/o Tarun Tyagi D/o Late Mr Raniit Kumar Nigam (legal Hiers of Late) Mr Raniit Kumar Nigam R/o 2, Second Floor, Manak Vihar, Karkardooma, East, Delhi-110092, Mrs Pooja Mailik W/o Sumit Malik D/o Late Mr Ranjit Kumar Nigam (legal Hiers of Late) Mr Ranjit Kumar Nigam R/o K-31/1,G.F., Model Town-3, Delhi-110009 to repay the amount mentioned in the notice being Rs 4,13,48,253.99 (Rs. Four Crore Thirteen Lakhs Fourty Eight Thousand Two Hundred Fifty Three and Ninety Nine Paise) as on 29.04.2017 (inclusive interest upto 29.04.2017) together with further interest thereon at the Contractual rate plus costs, charges and expenses till date of payment within 60 days from the date of said notice.

The Borrowers/ Guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers/ Guarantors and the public in general that the undersigned has taken physical possession of the property described herein below in exercise of power conferred on him/her under Sub - Sec. (4) of Section 13 of the said Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002, on this 27th day of July 2020.

The Borrowers/ Guarantors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with said Property and any dealings with the said Property will be subject to the charge of Bank of Baroda, ZOSARB Branch, 13th Floor, Bank of Baroda Building, 16, Sansad Marg, New Delhi - 110001, for an amount of Rs. 4,13,48,253.99 (Rs. Four Crore Thirteen Lakhs Fourty Eight Thousand Two Hundred Fifty Three and Ninety Nine Paise) as on 29.04.2017 (inclusive interest upto 29.04.2017) together with further interest, costs, expenses and other charges etc there on.

[The borrower's attention is invited to provisions of sub - section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.]

Description of the Immovable Property

All that part and parcel of the Equitable Mortgaged Freehold Residential Property Basement Situated on Plot No 172, Block-C, Sector 12, T.H.A, Residential Colony Ramprastha, Vill. Maharajpur, Pargana, Loni, Th. & Distt. Ghaziabad UP., in the name of Late Mr. Ranjit Kumar Nigam. Bounded as: East - Plot No C-171, West - Plot No C-171. North - 12ft Wide Service Lane, South - 80ft Wide Rd.

Authorized Officer, Bank of Baroda Date : 27-07-2020, Place : New Delhi



# MMTC LIMITED

(A Govt of India Enterprise) Core - 1, Scope Complex, 7, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi - 110 003. Email: mmtc@mmtclimited.com Website : www.mmtclimited.com

Extract of Statement of Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year ended on 31/03/2020

	(₹ in Crores, except per shan				share data)		
		Standalone			Consolidated		
S. No.	Particulars	Quarter ended 31.03.20 (Audited)	Quarter ended 31.03.19 (Audited)	Year ended 31.03.20 (Audited)	Year ended 31.03.19 (Audited)	Year ended 31.03.20 (Audited)	Year ended 31.03.19 (Audited)
1	Total income from operations	3497.14	7101.80	24134.98	28979.44	26304.71	29439.69
2	Net Profit/(Loss) before tax (before exceptional items)	(247.56)	24.93	(182.91)	128.35	(228.49)	155.64
3	Net Profit/(Loss) before tax (after exceptional items)	(295.52)	16.64	(227.23)	118.59	(272.81)	145.88
4	Net Profit/(Loss) after tax (after exceptional items)	(271.37)	11.76	(227.11)	81.43	(273.72)	108.72
5	Total Comprehensive Income Comprising Net Profit/(Loss) after tax and Other Comprehensive Income after tax	(291.72)	6.61	(247.76)	75.98	(286.14)	108.28
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of share ₹1 Each)	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
7	Other equity (excluding Revaluation Reserve)	1034.15	1339.25	1034.15	1339.25	760.53	1118.73
8	Earnings per share (of ₹1/- each) (not annualised):						
	(a) Basic	(1.81)	0.08	(1.51)	0.54	(1.82)	0.72
	(b) Diluted	(1.81)	0.08	(1.51)	0.54	(1.82)	0.72

### Notes:

(1) Due to CoVID-19 pandemic Government of India has announced lock down India from time to time to contain the spread of the pandemic. There was partial lifting of the lockdown from 03rd May, 2020 with certain conditions. Accordingly, company resumed its operations to cater the demand of its customers. However, this pandemic still continues and unpredictable, it is not possible at this point of time to assess the impact of the CoVID-19 on business exactly. Company is in the process of recouping from the effect of pandemic and to reach the same level of efficiency which is before pandemic.

(2) Previous quarters/year's figures have been re-grouped /re-arranged accordingly to make them comparable, wherever necessary.

- The financial results for the Quarter ended 31st March 2020 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year 2019-20 and the published year to date figures upto the third quarter of the current financial year. (3)
- (4) The above financial results have been reviewed by Audit Committee of Directors & approved by the Board of Directors at their meeting held on 31st July, 2020 and are subject to review by C&AG under section 143(6) of the Companies Act 2013.
- (5) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com & www.bseindia.com) and Company's website (www.mmtclimited.com)

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Place : New Delhi Dated : 31.07.2020

(Sanjay Chadha) **Chairman-and-Managing Director** 





# 10 **आयाम**

# विधायकों को बचाने की जुगत

गहलोत के समर्थक विधायकों को जयपुर से जैसलमेर में चार्टर्ड विमान के जरिये भेजा गया

# आदिति फडणीस

जस्थान में बढ़ते सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों को जयपुर से लगभग 500 किलोमीटर दूर जैसलमेर में चार्टर्ड विमान के जरिये भेजा गया है। ये विधायक 13 जुलाई से जयपुर के एक लक्जरी रिसॉर्ट में रह रहे थे। हालांकि इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि चार्टर्ड विमान या सूर्यगढ रिसॉर्ट के बिल का भुगतान कौन कर रहा है जहां वे रह रहे हैं । इन विधायकों को 14 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र की पूर्व संध्या तक जैसलमेर में रखा जाएगा।

गहलोत ने गुरुवार की रात संवाददाताओं से कहा, 'विधानसभा सत्र की घोषणा के बाद खरीद.फरोख्त की दरों में वृद्धि हुई है । पहले यह किस्त 10 करोड़ रुपये थीं और दूसरी 15 करोड़ रुपये थी। अब उनसे पूछा जा रहा है कि हमें बताएं कि आप क्या चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि अब दर 25 ;करोड रुपयेद्ध से भी ज्यादा हो गई है।'

अब तक 54 विधायकों को भेजा जा चुका है और बाकी को भी भेजा जाएगा। हालांकि मंत्री जयपुर में ही रहेंगे। विधायकों के जैसलमेर रवाना होने से पहले गहलोत ने जयपुर में विधायक दल की बैठक बुलाई और विधायकों से कहा कि उन्हें कई तरह की पेशकश की जाएगी लेकिन उन्हें उनकी अनदेखी करनी चाहिए क्योंकि उनकी सरकार बनी रहेगी। विधायक प्रशांत बैरवा ने बताया, 'हम जैसलमेर थोड़ा बदलाव के लिए जा रहे हैं।' पूर्व विधायक बद्रीराम जाखड ने जैसलमेर में संवाददाताओं से बातचीत में सचिन पायलट खेमे के सभी विधायकों के लिए अपील जारी कि वे वापस लौट आएं। जाखड़ ने कहा, 'अब भी देर नहीं हुई है। पायलट अब भी वापस आ सकते हैं।'

विधायकों को दूसरी जगह भेजने का तत्काल कदम इस आशंका से उठाया गया कि गहलोत खेमे के कम से कम 10 विधायक पायलट के संपर्क में हैं। इनमें महेंद्र विश्नोई



अशोक गहलोत और राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा

(जोधपुर के नजदीक लुनी के विधायक), प्रशांत बैरवा (निवाई के विधायक), दानिश अबरार (सवाई माधोपुर के विधायक) और चेतन दुडी (डिडवाना के विधायक) शामिल हैं। इन सबमें एक सामान्य बात यह है कि इन्हें 2018 के विधानसभा चुनावों में सचिन पायलट के उम्मीदवार के तौर पर चुना गया था और इन्होंने बड़े अंतर से अपने निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को हराया था। मिसाल के तौर पर दानिश अबरार ने भाजपा की आदिवासी उम्मीदवार आशा मीणा को 25,000 लोटों के अंतर से हराया था जो विधानसभा चुनाव के लिहाज से बड़ा अंतर है। अबरार पूर्व केंद्र मंत्री अबरार अहमद के बेटे हैं और इन्होंने ब्रिटेन के एक विश्वविद्यालय से एमबीए किया है। चेतन को 40.000 वोटों के अंतर से हराया था। प्रशांत बैरवा ने भाजपा के अपने प्रतिद्वंद्वी को

43,000 वोटों के अंतर से हराया। इन सभी लोगों ने पहले इस बात से इनकार किया था कि वे सचिन के खेमे से जुड़ रहे हैं। लेकिन गहलोत खेमे के लोग इनकी वफ

ादारी को लेकर हमेशा संदेह में रहे हैं। जब पहली बार राजस्थान संकट शरू हआ तब गहलोत ने इनसे बात की थी और कहा था कि पायलट भाजपा से जुड रहे हैं और अगर वे पायलट से जडते हैं तो उनका राजनीतिक भविष्य अधर में लटक जाएगा। जैसलमेर में विधायकों को भेजना एक सोची समझी रणनीति है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गहलोत खेमा एकजुट रहे।

राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और मख्यमंत्री गहलोत के बीच हाल में गतिरोध और गहरा गया जब राज्यपाल ने गहलोत के 31 जुलाई को विधानसभा का सत्र बुलाने के अनुरोध को नकार दिया। राज्यपाल ने कहा कि राजस्थान विधानसभा के नियमों के मुताबिक सभी विधायकों को दुडी ने भाजपा के एक मुस्लिम उम्मीदवार 21 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार से कहा कि वह इतने कम समय में विधानसभा सत्र बुलाने के पीछे के कारण बताए। हालांकि इसके बाद उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में 21 दिन के नोटिस के साथ मॉनसून सत्र बुलाना ही उचित होगा।

# विधायक अयोग्यता मामले में जोशी शीर्ष अदालत पहुंचे

राजस्थान के बर्खास्त उपख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेस के 19 बागी विधायकों के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राजस्थान कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने शुक्रवार को शीर्ष अदालत में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने इन विधायकों के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। पार्टी के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने विधान सभा अध्यक्ष सी पी जोशी द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के दो दिन बाद याचिका दायर की है। अधिवक्ता वरुण चोपड़ा के माध्यम से दायर इस याचिका में कहा गया है कि संविधान की शीर्ष अदालत के किहोता होलोहान प्रकरण में 1992 में दी गई व्यवस्था के आलोक में उच्च न्यायालय की यह कार्यवाही असंवैधानिक और गैर कानूनी थी। उच्चतम न्यायालय ने 1992 को अपने फैसले में कहा था कि अयोग्यता की कार्यवाही पर निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष को है और इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की इजाजत नहीं है।

राज्य में कांग्रेस की सरकार बर्खास्त उपमुख्यमंत्री पायलट और 18 अन्य विधायकों की बगावत के बाद राजनीतिक संकट से जुझ रही है। कांग्रेस सरकार का कहना है कि वह विधानसभा सत्र आयोजित कराना चाहती है ताकि सरकार अपना बहुमत साबित कर सके।

# `कोविड-१९ ने वित्तीय प्रणालियों की खामियां उजागर कीं' पीरजादा अबरार

एमेजॉन को अंतरराष्ट्रीय कारोबार में 34.5 करोड डॉलर का लाभ हआ है. जिसमें कोरोना महामारी के चलते किराने का सामान एवं अन्य उत्पादों की ऑनलाइन खरीदारी में तेज बढत का अहम योगदान है। पिछली कछ तिमाहियों में लगातार घाटे के बाद ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनी ने पहली बार अपने अंतरराष्ट्रीय कारोबार में इतना मनाफा दर्ज किया है। यरोप, जापान तथा भारत एमेजॉन के अंतरराष्टीय व्यापार का नेतृत्व करते हैं।

दूसरी तिमाही के आंकड़े जारी करते समय एमेजॉन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी ब्रायन टी. ओल्साव्स्की ने कहा, 'आप देखेंगे कि इस तिमाही में अंतरराष्ट्रीय कारोबार लाभदायक रहा है। यह एक बडा संकेत है। हमने देखा इस दौरान मांग बहुत तेजी से बढी।'

उन्होंने कहा कि एमेजॉन बेहतर तरीके से स्थापित देशों में मौजूद है और कंपनी के सबस्क्रिप्शन कार्यक्रम प्राइम के सदस्यों की संख्या में तेजी आई है। प्राइम सदस्यता उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त सेवाओं भी उपलब्ध कराती है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने इन देशों में वीडियो, संगीत तता दसरी ऐसी सेवाएं उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई हैं. जो पहले अमेरिका में लोगों के जीवन चक्र का हिस्सा थीं।

ओल्साव्स्की ने कहा, 'इन कई देशों में प्राइम कार्यक्रम पर काफी निवेश किया जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि नए देशों में भी निवेश किया जा रहा है। जाहिर है, निवेश के मामले में हमारे लिए भारत सबसे आगे है लेकिन मध्य पूर्व, ब्राजील, तुर्की एवं ऑस्ट्रेलिया में भी निवेश शरू किया गया है। हमारा विस्तार कार्यक्रम लगातार चलता रहता है।' एमेजॉन में निदेशक (निवेश संबंध) डेविड फिल्ड्स कहते हैं कि



राहुल गांधी, कांग्रेस नेता

भारत में कंपनी भारतीय विक्रेताओं को डिजिटल बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इनमें बहत सारे सक्ष्म, छोटे एवं मध्यम आकार के व्यवसाय शामिल हैं।

वह कहते हैं, 'हमने उनमें से कुछ के साथ डिजिटलीकरण को बढावा देने के लिए कछ नई सेवाएं शुरू कीं और उन टीमों ने कई अच्छे काम किए। उनके लक्ष्यों में विक्रेताओं की संख्या बढ़ाना शामिल रहा और वे काफी लगन से अपने लक्ष्यों पर काम कर रहे हैं तथा कई लोगों को भर्ती कर रहे हैं।' एमेजॉन ने कहा कि कंपनी की योजना अपने एक अरब डॉलर निवेश फंड की मदद से देशभर के सुक्ष्म, लघु एवं मझोले कारोबार को डिजिटल रूप से सक्षम बनाना है। कंपनी ने एमेजॉन डॉट कॉम पर लोकल शॉप्स को लॉन्च किया था जो दुकानदारों एवं खुदरा विक्रेताओं को अपने स्थानीय क्षेत्रों से अधिक ग्राहकों से जुड़ने के लिए मंच प्रदान करती है।




	र करोड़ों		
विवरण	30 जून 2020 को समाप्त तिमाही	30 जून 2019 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
	पुन:प	पुनःपरीक्षित	
प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	29,953.57	23,182.45	1,01,725.71
अवधि के लिए शुद्ध लाभ (टैक्स तथा असाधारण मदों से पूर्व)	4,815.93	4,579.36	26,193.25
अवधि के लिए टैक्स पूर्व शुद्ध लाभ (असाधारण मदों के बाद)	4,815.93	4,579.36	26,193.25
अवधि के लिए टैक्स पश्चात शुद्ध लाभ (असाधारण मदों के बाद)	4,058.53	3,539.72	22,826.47
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	6,509.18	4,083.00	16,613.05
इक्विटी शेयर पूंजी	346.92	345.06	346.41
प्रारक्षित (पूर्व वर्ष की बैलेन्स शीट में दिखाए गए पुनःमूल्यांकन प्रारक्षित को छोड़कर)			1,26,132.75
प्रति शेयर अर्जन (₹ 2 अंकित मूल्य प्रत्येक का)*			
बेसिक : (₹)	20.86	17.97	124.14
डायल्यूटेड : (₹)	20.78	17.86	123.19

# कोरोना में भी एमेजॉन का लाभ हुआ दोगुना

# पीरजादा अबरार

एमेजॉन को अंतरराष्ट्रीय कारोबार में 34.5 करोड डॉलर का लाभ हुआ है, जिसमें कोरोना महामारी के चलते किराने का सामान एवं अन्य उत्पादों की ऑनलाइन खरीदारी में तेज बढत का अहम योगदान है। पिछली कुछ तिमाहियों में लगातार घाटे के बाद ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनी ने पहली बार अपने अंतरराष्ट्रीय कारोबार में इतना मुनाफा दर्ज किया है। यूरोप, जापान तथा भारत एमेजॉन के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का नेतृत्व करते हैं

दूसरी तिमाही के आंकड़े जारी करते समय इन देशों में वीडियो, संगीत तता दूसरी ऐसी एमेजॉन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं मुख्य वित्तीय



फिल्डस कहते हैं कि भारत में कंपनी भारतीय विक्रेताओं को डिजिटल बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इनमें बहुत सारे सुक्ष्म, छोटे एवं मध्यम आकार के व्यवसाय शामिल हैं।

वह कहते हैं, 'हमने उनमें से कुछ के साथ डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए कुछ नई सेवाएं शुरू कीं और उन टीमों ने कई अच्छे काम किए। उनके लक्ष्यों में विक्रेताओं की संख्या बढाना शामिल रहा और वे काफी लगन से अपने लक्ष्यों पर काम कर रहे हैं तथा कई लोगों को भर्ती कर रहे हैं।' एमेजॉन ने कहा कि कंपनी अधिकारी बायन टी. ओल्साव्स्की ने कहा. 'आप पहले अमेरिका में लोगों के जीवन चक्र का की योजना अपने एक अरब डॉलर निवेश फंड कंपनी ने एमेजॉन डॉट कॉम पर लोकल शॉप्स को लॉन्च किया था जो दुकानदारों एवं खुदरा विक्रेताओं को अपने स्थानीय क्षेत्रों से अधिक सबस्क्रिप्शन कार्यक्रम प्राइम के सदस्यों की 🛛 लेकिन मध्य पूर्व, ब्राजील, तुर्की एवं ऑस्ट्रेलिया 🛛 ग्राहकों से जुड़ने के लिए मंच प्रदान करती है।

देखा इस दौरान मांग बहुत तेजी से बढ़ी।'

देखेंगे कि इस तिमाही में अंतरराष्ट्रीय कारोबार हिस्सा थीं। ओल्साव्स्की ने कहा, 'इन कई की मदद से देशभर के सूक्ष्म, लघु एवं मझोले लाभदायक रहा है। यह एक बड़ा संकेत है। हमने देशों में प्राइम कार्यक्रम पर काफी निवेश किया कारोबार को डिजिटल रूप से सक्षम बनाना है। जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि नए देशों में उन्होंने कहा कि एमेजॉन बेहतर तरीके से भी निवेश किया जा रहा है। जाहिर है, निवेश स्थापित देशों में मौजूद है और कंपनी के के मामले में हमारे लिए भारत सबसे आगे है

संख्या में तेजी आई है। प्राइम सदस्यता

उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त सेवाओं भी

उपलब्ध कराती है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने

सेवाएं उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई हैं, जो

M indiamart इंडियामार्ट इंटरमेश लिमिटेड

# सीआईएन : L74899DL1999PLC101534 पंजी. कार्यालय : प्रथम तल, 29, दरियागंज, नेताजी सुभाष मार्ग, दिल्ली–110002 फोनः (+91) (11) 49995600, ई—मेलः cs@indiamart.com, वेबसाइटः www.indiamart.com

# 21वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के संबंध में सूचना

- कार्पोरेट मंत्रालय (एमसीए) ने इसके सामान्य सर्कूलर नंबर 20 / 2020 दिनांकित 5 मई 2020 के साथ पठित सामान्य सर्कलर नंबर 14 / 2020 दिनांकित 8 अप्रैल 2020 तथा सामान्य सर्कलर नंबर 17 / 2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020 के माध्यम से कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) अथवा अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित करने की अनुमति प्रदान की है। इन सर्कुलर्स तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के संबद्ध प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी की 21वीं एजीएम सोमवार 31 अगस्त, 2020 को दोपहर 04.00 बजे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम की सूचना दिनांकित 21 जुलाई, 2020 में सूचीबद्ध साधारण और विशेष व्यवसाय के निष्पादन के लिए आयोजित की जाएगी। सदस्यगण एजीएम में वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग ले सकेंगे. वीसी / ओएवीएम सविधा के माध्यम से भाग ले रहे सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अधीन गणपूर्ति के प्रयोजन हेतु की जाएगी।
- उपरोक्त सर्कुलर्स के अनुपालन में, एजीएम की सूचना समाप्त वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तथा ई-वोटिंग हेतु लॉगइन विवरण के साथ कम्पनी के उन सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनका ई—मेल पता कम्पनी⁄डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के पास पंजीबद्ध है।
- उपर्युक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट : http://investor.indiamart.com पर तथा स्टॉक एक्स चेंजेज नामतः बीएसई लिमिटेड और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट क्रमानुसार www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।

# ई—मेल पता पंजीबद्ध / अद्यतन करवाने का ढंग

भौतिक रूप में शेयरों के धारक उन सदस्यों, जिनके द्वारा अपना ई–मेल पता कम्पनी में पंजीबद्ध नहीं करवाया गया है, से अनुरोध है कि कम्पनी को cs@indiamart.com पर लिखकर तथा/अथवा लिंक इनटाइम प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार ऐंड शेयर ट्रांसफर एजेन्ट ("आरटीए") को ई–मेल delhi@linkintime.co.in के माध्यम से अनुरोध भेजकर अथवा 011–49411000 पर सम्पर्क कर अपना ई–मेल पता अद्यतन करवा लें।

डीमैटीरियलाइज्ड रूप में शेयरों के धारक उन सदस्यों जिनके द्वारा अपना ई–मेल पता डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के पास पंजीबद्ध / अद्यतित नहीं करवाया गया है. से अनरोध है कि वे अपना ई—मेल पता डीपी के पास पंजीबद्ध / अद्यतन करवा लें, जिनके पास उनका डीमैट खाता अनुरक्षित है।

# ई—वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का ढंग :

कम्पनी अपने सभी सदस्यों को, एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने के लिए. रिमोट ई–वोटिंग सविधा ("रिमोट ई–वोटिंग") उपलब्ध करवा रही है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी एजीएम के दौरान ई—वोटिंग सिस्टम ("ई—वोटिंग") के माध्यम से वोट डालने की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराई गई है।

सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध नोट्स और विशेषकर एजीएम में भाग लेने हेतू अनुदेश, रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से तथा बैठक के दौरान ई—वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का ढंग पढ़ लें। वास्ते इंडियामार्ट इंटरमेश लिमिटेड

	8441.7-
	मनोज भार्गव
स्थान : दिल्ली	सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (लीगल एवं सेक्रेटरियल),
दिनांकित : 31 जुलाई, 2020	कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी



जेड ओ एसएआर 13वां तल, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, 16, संसद मार्ग नई दिल्ली–110001

# कब्जा सूचना (अचल सम्पत्तियों के लिए) नियम 8(1)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ बड़ौदा,** का प्रॉधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत ऋण धारक मैसर्स रंजीत प्लास्टिक इंडस्टीज प्रा. लि., 4316 / 192, 1 और 2. चौथा तल. सैनी मार्केट, बहादरगढ रोड, सदर बाजार, दिल्ली–110006 और गारंटर्स -श्रीमती अलका निगम, 123, श्रेष्ठ विहार, नई दिल्ली —110091, श्रीमती अलका निगम, मकान नं. 292, तृतीय तल, गंगन विहार, दिल्ली—110092, श्रीमती अलका निगम पत्नी स्वं. श्री रंजीत कुमार निगम (मृतक के कानूनी वारिस), श्री रंजीत कुमार निगम, 123, श्रेष्ठ विहार, नई दिल्ली 110091, श्रीमती अलका निगम पत्नी स्वं. श्री रंजीत कुमार निगम (मृतक के कानूनी वारिस) श्री रंजीत कुमार निगम, मुकान नं, 292. ततीय तल, गगन विहार, दिल्ली —110092 श्री सतीश कुमार निगम, सी—191, तुतीय तल, आनंद विहार, नई दिल्ली —110092, श्रीमती अलका निगम, 123, श्रेष्ठ विहार, नई दिल्ली —110091, श्रीमती अलका निगम, मकान नं. 292, तृतीय तल, गगन विहार, दिल्ली —110092, श्री आशीष निगम, 123, श्रेष्ठ विहार, नई दिल्ली —110091 श्री आशीष निगम, मकान नं. 292, तृतीय तल, गगन विहार, दिल्ली —110092, श्रीमती कशिश निगम, 123, श्रेष्ठ विहार, नई दिल्ली –110091, श्रीमती कशिश निगम, मकान नं, 292, ततीय तल, गगन विहार, दिल्ली —110092, श्री आशीष निगम पुत्र स्वं. श्री रंजीत कुमार निगम (मुंतक के कानूनी वारिस) श्री रंजीत कुमार निगम, 123, श्रेष्ठ विहार, नई दिल्ली —110091, श्री आशीष निगम पुत्र स्व. श्री रंजीत कुमार निगम (मृतक के कानूनी वारिस) श्री रंजीत कुमार निगम, मकान न. 292, तृतीय तल, गगून विहार, दिल्ली—110092, श्रीमती ईशा त्यागी पत्नी तरुण त्यागी पुत्री स्वं. श्री रंजीत कुमार निगम (मृतक के कानूनी वारिस) श्री रंजीत कुमार निगम निवासी : 2 द्वितीय तल, माणक विहार, कड़कडडूमा, पूर्व, दिल्ली—110092, श्रीमती पूजा मलिक पत्नी सुमित मलिक पुत्री स्व. श्री रंजीत कुमार निगम (मृतक के कानूनी वारिस) श्री रंजीत कुमार निंगम निवासी ँ के–31/1, जी.एफँ., मॉडल टाउँन–3, दिल्ली –110009 को मांग सूँचना दिनांक 27.12.2017 को जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि रू 4,13,48,253.99 रि. चार करोड तेरह लाख अडतालीस हजार दो सौ तिरेप्पन और पैसे निन्यान्वे मात्र) (दिनांक 29.04.2017 तक (दिनांक 29.04.2017 तक ब्याज की गणना) और भविष्य का ब्याज साथ मे अदायगी की तिथि संविदात्मक दर पर लागत, खर्चें और अन्य आकस्मिक प्रभार इत्यादि सहित तक उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था ऋणधारक / गारंटर राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वार ऋणधारक / गारंटर तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत 27.07.2020 को लिया है। विशेष रूप से ऋणधारक / गारंटर / बंधककर्ता तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्तियो pे साथ लेन—देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन बैंक ऑफ बड़ौदा, जेडओ एसएआरबी, 13वां तल, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 के प्रभार वास्ते 4.13.48.253.99 (रु. चार करोड़ तेरह लाख अडतालीस हजार दो सौ तिरेप्पन और पैसे निन्यान्वे मात्र) (दिनांक 29.04.2017 तक (दिनांक 29.04.2017 तक ब्याज की गणना) और भविष्य का ब्याज साथ में अदायगी की तिथि संविदात्मक दर पर लागत, खर्चे और अन्य आकस्मिक प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा। म्टणधारक का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है। अचल संपत्ति का विवरण साम्यिक बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्री होल्ड रिहायशी सम्पत्ति बेसमेंट

लॉट नं. 172, ब्लॉक–सी, टी.एच.ए. रिहायशी कॉलोनी, रामप्रस्था, गाँव महाराजपुर, परगना, लोनी, तह. और जिला गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, यह सम्पत्ति श्री रंजीत कुमार निगम के नाम पर है। चौहदी : पुरब में — प्लॉट न. सी—171, पश्चिम में — प्लॉट नं. सी—171, उत्तर में — 12फीट चौडी सर्विस लेन, दक्षिण में — 80फीट चौडी रोड

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बडौदा दिनांक : 27.07.2020, स्थान : नई दिल्ली

\*तिमाहियों के लिए वार्षिकीकृत नहीं

हाउसिंग डेव्लपमेन्ट फ़ायनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पृथक परिणामों से संबंधित मुख्य आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

विवरण	30 जून 2020 को समाप्त तिमाही	30 जून 2019 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
	पुनःपरीक्षित		लेखापरीक्षित
कुल आय	13,019.29	12,996.11	58,763.34
टैक्स से पूर्व लाभ	3,606.83	3,985.11	20,350.92
टैक्स व्यय	555.31	782.01	2,581.27
टैक्स के पश्चात शुद्ध लाभ	3,051.52	3,203.10	17,769.65
कुल व्यापक आय	5,070.38	3,465.08	11,117.34

# टीप :

1. उपरोक्त परिणामों की समीक्षा बोर्ड की लेखा परीक्षा तथा शासन समिति द्वारा की गई है तथा कार्पोरेशन के निदेशक मंडल ने 30 जुलाई 2020 को आयोजित अपनी बैठक में इसे स्वीकृत किया है तथा कार्पोरेशन के लेखापरीक्षकों ने इसकी पुनःपरीक्षा की है.

2. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता की अनिवार्यताएं तथा प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के समक्ष दर्ज वित्तीय परिणामों के विस्तृत फॉर्मेट का संक्षिप्त रूप है. वित्तीय परिणामों का पूरा फॉर्मेट www.bseindia.com, www.nseindia.com तथा www.hdfc.com पर उपलब्ध है.

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

स्थान : मुंबई दिनांक : 30 जुलाई, 2020

केकी एम. मिस्त्री वाइस चेयरमैन एवं सीईओ



हमसे यहां मिलें : www.hdfc.com

पंजीकृत कार्यालय : रैमन हाउस, एच. टी. पारेख मार्ग, 169, बैकबे रेक्लेमेशन, चर्चगेट, मुंबई 400 020. फ़ोन : 022-2282 0282, 6631 6000. फैक्स : 022-2281 1205. ई-मेल : investorcare@hdfc.com CIN: L70100MH1977PLC019916

NETWORK HDFC900-20 Hin

₹ करोडों में